



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-28.10.2022

थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त विशाल गुप्ता उर्फ साहिल गुप्ता गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामदा

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के पर्यवेक्षण में थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु.अ.स. 393/2022 धारा 147/148/149/307/302/504/506/34 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट में वांछित अभियुक्त विशाल गुप्ता उर्फ साहिल गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी सी 33/148-ए चंदुआ छित्तपुर थाना सिगरा जनपद वाराणसी को आज दिनांक 28.10.2022 को समय 10.25 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदाही पर आलाकत्ल लोहे का पाइप भी बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 12.010.22 को सिगरा थाना क्षेत्र के जय प्रकाश नगर कालोनी अन्तर्गत शराब पीकर हंगामा करने कर रहे लोगों को मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी श्री रुद्रेश कुमार सिंह के पिता श्री पशुपति नाथ सिंह व भाई श्री राजकुमार सिंह पर लाठी डंडा व राड से जानलेवा हमला कर दिया गया जिसमें वादी के पिता की मृत्यु हो गयी तथा भाई घायल हो गये। वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिगरा में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक सिगरा द्वारा सम्पादित की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

विशाल गुप्ता उर्फ साहिल गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी सी 33/148-ए चंदुआ छित्तपुर थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. निरीक्षक राजू सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
2. उ०नि० श्री प्रकाश सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
3. उ०नि० श्री अश्वनी राय थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
4. हे०का० कृष्णानन्द राय थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
5. हे०का० अभय नारायण सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
6. का० धीरेन्द्र यादव थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
7. का० राकेश सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
8. का० सुनील गौतम थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी